

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना-गम्भीरपुर****गम्भीरपुर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय एटीएम चोर गिरफ्तार, 20 अदद एटीएम व चोरी की मोटर सायकिल भी बरामद**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तगण/वारण्टी की गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में व.उ 0नि0 नवल किशोर सिंहमय हमराह के बिन्द्रा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक ATM चोर कस्बा मुहम्मदपुर में यूनियन बैंक के ATM पर मौजूद है और चोरी करने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके ईगल के कर्मचारीगणको साथ लेकर यूनियन बैंक ATM पर पहुंचा तो ATM के बाहर एक व्यक्ति जो मो पर बैठा था 0सा0 मुखबिर द्वारा दिखाकर बताया कि साहब यही व्यक्ति ATM चोर है पास जाकर सम्बन्धित को टोका गया तो हम पुलिस वालों को देखकर भागना चाहा की वहीं पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से समय करीब 11.10 बजे पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अजीत कुमार S/O राममूरत सा लपरी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 0 रूपया नकद, उसका 1120 उसके पैंट की जेब में रखा DL N. 62/13/0001939 तथा अदद 20 ATM डेविड कार्ड/ विभिन्न बैंकों का बरामद हुआ तथा एक अदद मोटरसायकिल चोरी की बिना नम्बर की बरामद हुआ

पूछताछ विवरणअभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया की साहब मैं इसी चोरी की मोटर सायकिल से घूम घूम कर लोगों का एटीएम बदल लेता हूँ और पिन की जानकारी कर उनके खाते से पैसा निकाल लेता हूँ आगे पूछताछ में बताया कि बरामद शुदा 20 अदद एटीएम कार्ड में से एक ATM कार्ड मैं दिनांक 6/9/ को एक व्यक्ति से कस्बा विन्द्रा बाजार 21 UBI के ATM पर धोखा देकर बदल लिया था और उसी ATM से 25000/ रूपया निकाला था जिसमें से रूपया बच गया था शेष 1120 पैसा खर्च हो गया बरामद शुदा मोटर सायकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह मो 22 दिनांक 0सा0/23.5. को महुआ 21 ,ताली ग्राम थाना मेहनगर से रात्रि में चोरी किया था और उसी गाडी से घुमघुम कर जनपद वाराणसी , चन्दौली, इलाहाबाद , जौनपुर आजमगढ़ में मैं ATM को सम्बन्धित से बदलकर उसमें से ATM पिन पैसा निकालते समय देखकर निकाल लेता हूँ ये सभी ATM किसी न किसी व्यक्ति से धोखा देकर बदले है और सभी के खाते से पैसा निकाल लिया है। अभियुक्त उपरोक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही मा 0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी.....(कुल-20 अदद एटीएम कार्ड विभिन्न कम्पनी का)

1. UBI बैंक के 08 अदद एटीएम
- 2- SBI बैंक के 04 अदद एटीएम
- 3- बैंक आफ इण्डिया के 02 अदद एटीएम
- 4- ICICI बैंक के 01 अदद एटीएम
- 5- ALLAHABAD बैंक के 01 अदद एटीएम
- 6- PNB बैंक के 01 अदद एटीएम
- 7- HDFC बैंक के 01 अदद एटीएम
- 8- KOTEK MAHENDRA बैंक के 01 अदद एटीएम
- 9- काशी गोमती बैंक के 01 अदद एटीएम

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 194/21 धारा 379/411/413/414/420 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 194/21 धारा 379/411/413/414/420 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 663/2015 धारा 379/420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1- अजीत कुमार S/O राममूरत सालपरी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व.उ0नि0 नवल किशोर सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. का. उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 संदीप कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 अजीत कुमार यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

एसपी यातायात द्वारा मिशन शक्ति के तहत छात्र-छात्राओं को किया जागरूक व यातायात नियमों के बारे में भी बताया गया।

डीआईजी आजमगढ़ ने निर्देश पर जनपद के समस्त थानों पर आदर्श चौराहा का विकास किया जा रहा है।

आज दिनांक 10 सितंबर 2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर सिंह के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जायसवाल के द्वारा शहर के चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल बेलाइसा के सभागार में उपस्थित करीब 200 छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीटबेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा से ड्राइविंग, गलत पार्किंग, रिफ्लेक्टर टेप के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई जिसमें हेलमेट के सम्बंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय द्वारा बताया हेलमेट जब भी पहने आई एस आई मार्क वाला होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होने से कई दुर्घटना के मामले में देखा गया है कि हेलमेट पहने व्यक्ति के सिर के ऊपर से वाहन गुजर जाने पर भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है व सही सलामत बच जाता है हेलमेट पहनने पर करीब दुर्घटना होने पर करीब 60% तक कमी लाई जा सकती हैं तथा सीटबेल्ट के सम्बंध में उपस्थित छात्र छात्राओं को बताये कि वाहन में बैठ कर चलते समय वाहन के साथ साथ उसमें बैठे सभी लोग उसी गति से गतिमान रहते हैं तथा अचानक दुर्घटना होने पर वाहन रुक जाता हैं और उसमें बैठा व्यक्ति उसी गति से गतिमान रहता हैं जिस कारण वह डेक्सबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा जाता है जिससे गम्भीर चोट लग जाती है जिससे मृत्यु तक हो जाती हैं अगर वाहन में बैठे व्यक्ति सीटबेल्ट का प्रयोग करें तो सीटबेल्ट पहनने के कारण व्यक्ति डेक्सबोर्ड या स्टेयरिंग से नहीं टकराएंगे जिससे मृत्यु दर 50 % तक कमी लाई जा सकती हैं बच्चों द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात से शराब पीकर वाहन चलाने के सम्बंध में प्रश्न पूछा गया तो महोदय द्वारा बताया गया कि हम लोग समय समय पर पूरे जनपद में ब्रेथ इन्हेलाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग कराई जाती हैं और जो भी शराब पीकर वाहन चलाते मिलते हैं उनके वाहन को सीज किया जाता हैं व चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती हैं गलत दिशा से वाहन चलाने के विषय में बताया गया कि गलत दिशा से वाहन चलाने पर दुर्घटना की प्रबल आशंका होती हैं अतः सभी को अपनी दिशा में ही वाहन चलाना चाहिए उपस्थित छात्र छात्राओं को ओवर स्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं के विषय में बताया गया कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण वाहन का ओवर स्पीडिंग हैं वाहन को सड़क के अनुरूप की चलाना चाहिए साथ ही साथ सड़क पर गलत पार्किंग न करने तथा सभी वाहनों पर आगे व पीछे रिफ्लेक्टर टेप की अनिवार्यता व उसका लाभ बताया गया कि रात में अगर कोई बड़ी गाड़ी सड़क पर खड़ी होती हैं तो वो नहीं दिखती लेकिन अगर उस पर रिफ्लेक्टर लगा हो तो वह दूर से ही दिख जाता हैं जिससे दुर्घटना में काफी कमी लाई जा सकती हैं व अन्य यातायात के नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय द्वारा बताया गया कि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परीक्षेत्र महोदय श्री अखिलेश कुमार के आदेश के क्रम में पूरे जनपद में प्रत्येक थाने पर एक आदर्श चौराहा विकसित किया जा रहा हैं जिस पर यातायात के नियमों का सम्पूर्ण पालन कराया जाएगा साथ ही साथ उपस्थित छात्राओं व शिक्षिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत बताया गया कि वर्तमान सरकार महिला सम्बन्धी अपराध के विषय में लोगो को काफी जागरूक कर रही हैं इसी क्रम में सरकार द्वारा टोल फ्री नम्बर 112 1090 1076 1073 व अन्य नम्बर जारी किए गए जिस पर किसी भी छात्रा या महिला को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कोई सोशल मीडिया पर परेशान करता है उसकी शिकायत की जा सकती शिकायत कर्ता अगर चाहे तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा तथा यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया हैं जिस पर महिला पुलिस अधिकारी हमेसा मौजूद रहती है अगर किसी को समस्या हो तो थाने पर जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती हैं व अन्य विस्तृत जानकारी प्रदान की गई सभा का संचालन श्री राजेश त्रिपाठी प्रधानाचार्य चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल द्वारा किया गया मौके पर यातायात प्रभारी कौशल पाठक व स्कूल के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी।